



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 687) पटना, बुधवार, 26 दिसम्बर 2012

सं0 टी.एच.-90/2008-34
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

प्रेषक:

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव
सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना

पटना-15, दिनांक 8 जून 2012

विषय - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना में गैर योजना मद में स्थायी रूप से 6 (छः) शोध सहायकों के पदों (पे बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4200) के सृजन की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

02 उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना में गैर योजना मद में स्थायी रूप से 6 (छः) शोध सहायकों के पदों (पे बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4200) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है।

03 उक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतन एवं भत्ते का भुगतान मांग संख्या-4 के मुख्य शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति-00-104-अभिलेखागार-0001-विपत्र कोड-N2205001040001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा (व्यय विवरणी संलग्न)।

अनु. - यथोक्त।

विश्वासभाजन,
विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक: 1

बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना के अंतर्गत छः शोध सहायकों के वेतन से संबंधित वार्षिक व्यय विवरणी:-

पदनाम	इकाई	एक माह का वेतन	शोध सहायक के छः पदों के लिए एक माह का वेतन	शोध सहायक के छः पदों के लिए १२ माह का कुल वेतन
शोध सहायक	वेतन (ग्रेड पे + पे बैंड- 9300 + 4200)	रु0 13,500/-	रु0 81,000/-	रु0 9,72,000/-
	मंहगाई भत्ता 65%	रु0 8,775/-	रु0 52,650/-	रु0 6,31,800/-
	मकान किराया भत्ता 20%	रु0 2,700/-	रु0 32,400/-	रु0 3,88,800/-
	चिकित्सा भत्ता	रु0 200/-	रु0 2,400/-	रु0 28,800/-
	परिवहन भत्ता	रु0 700/-	रु0 8,400/-	रु0 1,00,800/-
	कुल	रु0 25,875/-	रु0 1,76,850/-	रु0 21,22,200/-

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 687-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>